



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2005 (आषाढ़ 11, 1927)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2005 (ASADHA 11, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

| विषय-सूची  |           |
|--|-----------|
| भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं   | पृष्ठ 779 |
| भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं   | 633       |
| भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं  | 7         |
| भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं   | 993       |
| भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम  | *         |
| भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ  | *         |
| भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट   | *         |
| भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)  | *         |
| भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं   | *         |
| भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | *         |
| भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  | *         |
| भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं  | 719       |
| भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस   | 323       |
| भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अध्यापन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं  | *         |
| भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं  | 1795      |
| भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस   | 177       |
| भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण   | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1-131GI/2005

(779)

## CONTENTS

|  | Page |   | Page |
|--|------|---|------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .  | 779  | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . | *    |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .  | 633  | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .  | *    |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .  | 7    | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .   | 719  |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .   | 993  | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .   | 323  |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .   | *    | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners . . . . .  | *    |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .   | *    | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .   | 1795 |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .   | *    | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .   | 177  |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . | *    | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .  | *    |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .   | *    |   |      |

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2005

सं. 1/5/2003-सी.टी.2--दिनांक 27.07.2004, 10.02.2005 एवं 28.03.2005 पठित दिनांक 06.02.2004 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित कपास सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य को तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

कपास उपजकर्ता

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. श्री रणजीतसिंह द झाला | सदस्य |
| उप सरपंच                 |       |
| गबत ग्राम पंचायत         |       |
| गबत (दरबारगढ़)           |       |
| ता. बायद                 |       |
| जिल्ला साबरकन्या         |       |

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 06.02.2004 की अधिसूचना सं 1/5/2003-सी.टी.2 ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुदृप्त राय  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2005

सं. एफ. 9-28/2004-यू. 3--इस मंत्रालय की दिनांक 29.9.2003 और 22.07.2004 की अधिसूचनाओं के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर परवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लोनी के अंतर्गत शामिल दो संस्थाओं को सम्मिलित करके तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय घोषित करती है:-

- (i) जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (ii) सामाजिक चिकित्सा केन्द्र

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-15/2002-यू. 3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटनगर, अरुणाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय घोषित करती है। बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :-

(i) संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य समबद्ध सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी सम विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ii) कुलपति/निदेशक से संबंधित संगम ज्ञापन के खंड में कुलपति/निदेशक की नियुक्ति के लिए सर्व कमिटी का प्रावधान होगा।

(iii) संस्थान की पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावासों और केन्द्रीय सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जून 2005

सं. एफ. 9-5/2004-यू. 3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई को उनकी निम्नलिखित दस संघटक इकाइयों सहित :

1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे
2. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम
3. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
4. वैरीयेबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता
5. साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता
6. इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधी नगर
7. इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर
8. हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद
9. टाय मेमोरियल सेंटर, मुम्बई
10. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चैन्नई

उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है।

(क) यह कि ऊपर सूचीबद्ध संस्थाएँ, जो कि वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा उससे मान्यताप्राप्त हैं अथवा उसका संघटक हैं, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान की संघटक इकाई के रूप में उस तिथि से मानी जाएंगी जिन तिथि से वे संबंधित विश्वविद्यालय से असंबद्ध हो जाएंगी/मान्यता समाप्त करवा लेगी/संबंध समाप्त कर लेगी, जैसा भी मामला हो।

(ख) यह कि होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थाओं पर यथा लागू समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों का पालन करेगा।

(ग) यह कि संगम ज्ञान और/अथवा होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के नियमों में, जैसा भी मामला हो, निम्न हेतु उचित प्रावधान किया जायेगा :

- (i) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान की प्रबंधन परिषद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को नामित करने हेतु
- (ii) शिकायत दूर करने संबंधित तंत्र स्थापित करने हेतु
- (iii) परिष्कृत सूची के रखरखाव हेतु
- (iv) डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने हेतु प्रबंधन परिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हेतु
- (v) संगम ज्ञान के खंड (5) में दुभाषिये के नाम का ब्यौरा देना
- (vi) संघटक इकाई/संस्था को परिभाषित करना
- (vii) अध्यक्ष तथा निदेशक को होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के प्राधिकारियों के रूप में परिभाषित करना
- (viii) अध्यक्ष तथा निदेशक के नाम को होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के प्राधिकारियों की सूची से हटाना
- (ix) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारियों की नियुक्ति की शर्त, दायित्वों तथा अधिकारी सहित उनकी नियुक्ति के तरीके का ब्यौरा देना
- (x) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक को आपातकाल/तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देना और आपश्चात अगली बैठक में संबंधित प्राधिकारी से की गई कार्यवाही की पुष्टि करवाना।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2005

सं. 3-0/2003-प्रशा. I--राष्ट्रपति जी ने श्री रिमझिम प्रसाद, भारतीय सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा (91) को दिनांक 10.06.2005 के पूर्वार्द्ध से महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् 09.06.2009 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.5.2005 के आदेश संख्या 4/25/2004-ई.ओ. (एम.एम. 1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आर. एस. शर्मा  
अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2005

संकल्प

सं. 5-25/2000-यू.एस. (अकादपी)--राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी के नियम तथा विनियम के नियम 4(क) (1) के अनुसरण में, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय एतद्वारा श्रीमती अमल अल्लान को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्ष नियुक्त करता है। यह नियुक्ति चार वर्षों की अवधि के लिए होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अध्यक्ष, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भगवान दास रोड, बहावलपुर हाउस, नई दिल्ली को भेजी जाए तथा इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. जयकुमार  
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 जून 2005

संकल्प

सं. 2-1/2003-हिंदी--भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :--

संस्कृति मंत्री  
गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| 1. श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य        | (राज्य सभा) | सदस्य |
| 2. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, संसद सदस्य | (राज्य सभा) | सदस्य |
| 3. श्री किरिप चालिया, संसद सदस्य       | (लोक सभा)   | सदस्य |
| 4. श्री बालेश्वर यादव, संसद सदस्य      | (लोक सभा)   | सदस्य |
| संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित      |             |       |
| 5. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, संसद सदस्य   | (लोक सभा)   | सदस्य |
| 6. श्री मनोज कुमार, संसद सदस्य         | (लोक सभा)   | सदस्य |

## अखिल भारतीय स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

## सरकारी सदस्य

|  |       |  |            |
|--|-------|--|------------|
| 7. श्री मधुकर राव चौधुरी<br>अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा<br>गांव व पो. खिरोदा तारघर : रावेर<br>जिला-जलगाँव (महाराष्ट्र)-425504<br>फोन : 2584-84230 | सदस्य | 16. सचिव, संस्कृति मंत्रालय  | सदस्य      |
| 8. डॉ. परमानंद पांचाल<br>(प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्)<br>232-ए पॉकेट, मयूर विहार फेज-1,<br>दिल्ली-110091.                                      | सदस्य | 17. सचिव, राजभाषा विभाग  | सदस्य      |
| राजभाषा विभाग द्वारा नामित   |       | 18. संयुक्त सचिव (आर), संस्कृति मंत्रालय                                   | सदस्य      |
| 9. डॉ. श्रीमती मुक्ति व्यास<br>12/8, न्याय मार्ग<br>सर्किट हाउस के सामने<br>इलाहाबाद-211001  | सदस्य | 19. वित्त सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय                                       | सदस्य      |
| 10. डॉ. श्रीमती राजलक्ष्मी शिवहरे,<br>सी-13, एच.आई.जी. धनवन्तरी नगर,<br>जबलपुर-482003 (म.प्र.)   | सदस्य | 20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग  | सदस्य      |
| 11. डॉ. केशव फालके<br>12-बी/20<br>शासकीय अधिकारी निवास<br>हाजी अली<br>मुम्बई-400034  | सदस्य | 21. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार,<br>नई दिल्ली                          | सदस्य      |
| संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित   |       | 22. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,<br>नई दिल्ली                     | सदस्य      |
| 12. डॉ. अहमद हुसैन<br>प्रो. तथा हिंदी विभाग प्रमुख<br>अन्नामलाई यूनिवर्सिटी<br>अन्नामलाई नगर,<br>तमिलनाडू-608002   | सदस्य | 23. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय,<br>नई दिल्ली                           | सदस्य      |
| 13. श्री अशोक वाजपेयी<br>सी-60, अनुपम कोऑप्रिटिव ग्रुप<br>हाउसिंग सोसायटी लि.<br>बी-13, वसुंधरा एनक्लेव, चिल्ला दल्लूपुरा<br>दिल्ली-110096                     | सदस्य | 24. निदेशक<br>भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता                       | सदस्य      |
| 14. श्री मधुकर उपाध्याय<br>126, समाचार अपार्टमेंट<br>मयूर विहार, फेज-1<br>दिल्ली-110091  | सदस्य | 25. निदेशक<br>राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली                    | सदस्य      |
| 15. श्री कमलेश्वर<br>बी-116, इरोज गार्डन,<br>सूरजकुंड रोड, नई दिल्ली-110044  | सदस्य | 26. निदेशक<br>राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता                                 | सदस्य      |
|  |       | 27. निदेशक<br>केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता                          | सदस्य      |
|  |       | 28. निदेशक<br>राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला,<br>लखनऊ     | सदस्य      |
|  |       | 29. निदेशक<br>केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली                       | सदस्य      |
|  |       | 30. निदेशक (आई.सी.आर.), संस्कृति मंत्रालय                                  | सदस्य      |
|  |       | 31. निदेशक (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय                                  | सदस्य      |
|  |       | 32. निदेशक (साहित्य एवं कला), संस्कृति मंत्रालय                            | सदस्य      |
|  |       | 33. निदेशक (सामा. प्रशा.), संस्कृति मंत्रालय                               | सदस्य      |
|  |       | 34. निदेशक (स्थापना) संस्कृति मंत्रालय                                     | सदस्य      |
|  |       | 35. निदेशक (राजभाषा)   | सदस्य      |
|  |       | 36. उपसचिव, संस्कृति मंत्रालय  | सदस्य      |
|  |       | 37. उपसचिव, संस्कृति मंत्रालय  | सदस्य      |
|  |       | 38. सभी स्वायत्तशासी निकायों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक<br>केंद्रों के प्रमुख |            |
|  |       | 39. संयुक्त सचिव (प्रशासन) संस्कृति मंत्रालय                               | सदस्य-सचिव |

## 2. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

संस्कृति मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा राजभाषा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियमों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों में निहित राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देना।

## 3. समिति का कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष का होगा :—

- (क) जो संसद सदस्य इस समय समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

## 4. सामान्य :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

## 5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा. भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. जयकुमार  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 14th June 2005.

No. 1/5/2003-CT-II.—The following Member is nominated to the Cotton Advisory Board, reconstituted vide Notification of even number dated 06.02.2004 read with Notifications dated 27.07.2004, 10.02.2005 & 28.03.2005 with immediate effect :—

## COTTON GROWERS

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Shri Ranjitsinh D Jhala<br>Deputy Sarpanch<br>Gabat Gram Panchayat<br>Gabat (Darbargadh)<br>Ta. Bayad<br>Dist. Sabarkantha | Member |
|---|--------|

2. The Notification No. 1/5/2003-CT-II dated 06.02.2004 regarding reconstitution of the Cotton Advisory Board stands modified to the extent stated above.

## ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

Ordered also that it be published in the Gazette of India.

SUDRIPTA ROY  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPARTMENT OF SECONDARY &amp; HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 31st May 2005

No. F.9-28/2004-U.3.—In continuation of this Ministry's notifications number F. 9-11/2000-U.3 dated 29.9.2003 and 22.7.2004 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare that the following two institutions are included under the ambit of Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, (Deemed to be University) with immediate effect :—

1. Centre for Biotechnology
2. Centre for Social Medicines

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

No. F.9-15/2002-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the North Eastern Regional Institute of Science & Technology, Itanagar, Arunachal Pradesh as Deemed to be University for the purpose

of the aforesaid Act with immediate effect subject to the following conditions :—

- (i) The Institute will adhere to the guidelines/ instructions issued by UGC and other concerned statutory bodies from time to time as applicable to the Deemed Universities.
- (ii) Clause in MOA pertaining to Vice-Chancellor/ Director shall have provision for Search Committee for the appointment of Vice-Chancellor/Director.
- (iii) Institute's library, laboratories, girls' hostel and central facilities would be improved.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

The 3rd June 2005

No. F. 9-5/2004-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare that Homi Bhabha National Institute (HBNI), Mumbai along with its following ten constituent units :—

1. Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Trombay
2. Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR), Kalpakkam
3. Centre for Advanced Technology (CAT), Indore.
4. Variable Energy Cyclotron Centre (VECC), Kolkata
5. Saha Institute of Nuclear Physics (SINP), Kolkata
6. Institute of Plasma Research (IPR), Gandhinagar
7. Institute of Physics (IOP), Bhubaneswar
8. Harish Chandra Research Institute (HRI), Allahabad
9. Tata Memorial Centre (TMC), Mumbai
10. Institute of Mathematical Sciences (IMSc), Chennai

as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to the following conditions :—

- a. That the institutions listed above which are presently affiliated with or recognized by or constituent part of any university shall become constituent unit of the HBNI only with effect from the date they stand disaffiliated/de-recognized/de-linked, as the case may be, from the relevant university.
- b. That the HBNI shall adhere to the guidelines/ instructions issued by the UGC and the AICTE from time to time as applicable to institutions Deemed to be Universities.

c. That appropriate provision in the Memorandum of Association (MOA) and/or Rules of the HBNI, as the case may be, shall be made to :

- (i) nominate a representative of the Ministry of Human Resource Development on Council of Management of the HBNI;
- (ii) putting in place a grievance redressal machinery;
- (iii) maintain a Seniority List;
- (iv) seek approval of Council of Management for the award of Degrees/Diplomas;
- (v) specify the name of interpreter in Clause (5) of MOA;
- (vi) define the constituent unit/institution;
- (vii) define the Chairman and the Director as officers of HBNI;
- (viii) remove the Chairman and the Director from the list of authorities of the HBNI;
- (ix) specify mode of appointment of the officers of the HBNI alongwith their terms of appointment, duties and powers;
- (x) empower the Director the HBNI to exercise the power of authorities of the HBNI in case of emergency/exigency and thereafter, get actions ratified in the next meeting of the concerned authority.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD  
DEVELOPMENT)

New Delhi, the 10th June 2005

No. 3-8/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Rimjhini Prasad, IC&CES(91), as Deputy Secretary in the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 10.06.2005, for a period of four years from the date of taking over charge of the post i.e. upto 09.06.2009 or until further orders, whichever is earlier.

2. This is in pursuance of DOPT's order No. 4/25/2004-EO(MM.I) dated 17.5.2005.

R.S. SHARMA  
Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE  
New Delhi, the 30th May 2005

RESOLUTION

No. 5-25/2000-US(Akademies).—In accordance with Rule 4(a)(1) of the Rules and Regulations of the National School

of Drama Society, the Government of India, Ministry of Culture, hereby appoints Smt. Amal Allana as Chairman of the National School of Drama, New Delhi, with immediate effect. The appointment will be for a period of four years.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to the Chairman, National School of Drama, Bhagwandas Road, Bahawalpur House, New Delhi and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. JAYAKUMAR  
Jt. Secy.

The 20th June 2005

RESOLUTION

No. 2-1/2003-Hindi.—It has been decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Culture, Government of India. The structure of the reconstituted Committee will be as follows :—

Minister of Culture Chairman

Non-official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Shri Anand Sharma, Member of Parliament (Rajya Sabha)         | Member |
| 2. Shri Harendra Singh Malik, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |
| 3. Shri Kirip Chaliha, Member of Parliament (Lok Sabha)          | Member |
| 4. Shri Baleshwar Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha)        | Member |

Nominated by Committee of Parliament on Official Language

- |  |        |
|--|--------|
| 5. Dr. Ramkrishna Kusmaria, Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 6. Shri Manoj Kumar, Member of Parliament (Lok Sabha)        | Member |

Representatives from All India Voluntary Hindi Organization

- |   |        |
|---|--------|
| 7. Shri Madhukar Rao Chaudhry<br>Chairman, Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Vardha, Maharashtra<br>Vill. & PO-Khiroda Telegraph Office,<br>Raver Distt. Jalgaon<br>Pin-425504<br>Phone : 2584-84230 | Member |
| 8. Dr. Parmanand Panchal<br>(Representative : Kendriya Sachivalaya<br>Hindi Parishad)<br>232-A, Pocket-I, Mayur Vihar, Phase-I<br>Delhi-110091  | Member |



## Nominated by Department of Official Language

- |  |        |
|--|--------|
| 9. Dr. (Smt.) Mukti Vyas<br>12/8, Nayay Marg<br>(Near Circuit House)<br>Allahabad-211001   | Member |
| 10. Dr. (Smt.) Rajlakshmi Shivhare<br>C-13, HIG Dhanwantari Nagar,<br>Jabalpur-482003 (MP) | Member |
| 11. Dr. Keshav Phalke,<br>12-B/20, Govt. Officers' Residence<br>Hazi Ali, Mumbai-400034    | Member |

## Nominated by Ministry of Culture

- |  |        |
|--|--------|
| 12. Dr. Ahamad Hussain<br>Professor and HOD (Hindi)<br>Annamalai University<br>Annamalai Nagar<br>Tamil Nadu-608002                                    | Member |
| 13. Shri Ashok Vajpeyi<br>C-60, Anupam Co-operative Group<br>Housing Society Limited<br>B-13, Vasundhara Enclave<br>Chilla Dhallupura,<br>Delhi-110096 | Member |
| 14. Shri Madhukar Upadhyay<br>126, Samachar Apartments<br>Mayur Vihar, Phase-I<br>Delhi-110091   | Member |
| 15. Shri Kamleshwar<br>B-116, Eroze Garden<br>Surajkund Road,<br>New Delhi-110044  | Member |

## Official Members

- |   |        |
|---|--------|
| 16. Secretary, Ministry of Culture                              | Member |
| 17. Secretary, Department of Official Language                  | Member |
| 18. Joint Secretary (R), Ministry of Culture                    | Member |
| 19. Financial Adviser, Ministry of Culture                      | Member |
| 20. Joint Secretary, Department of Official Language            | Member |
| 21. Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi | Member |
| 22. Director General, National Archives, New Delhi              | Member |
| 23. Director General, National Museum, New Delhi                | Member |
| 24. Director, Anthropological Survey of India, Kolkata          | Member |
| 25. Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi         | Member |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 26. Director, National Library, Kolkata   | Member           |
| 27. Director, Central Reference Library, Kolkata  | Member           |
| 28. Director, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow | Member           |
| 29. Director, Central Secretariat Library, New Delhi                                      | Member           |
| 30. Director (Libraries), Ministry of Culture   | Member           |
| 31. Director (ICR), Ministry of Culture   | Member           |
| 32. Director (Museums), Ministry of Culture   | Member           |
| 33. Director (Lit. & Arts), Ministry of Culture   | Member           |
| 34. Director (Estt.), Ministry of Culture   | Member           |
| 35. Director (Raj Bhasha)   | Member           |
| 36. Deputy Secretary, Ministry of Culture   | Member           |
| 37. Deputy Secretary, Ministry of Culture   | Member           |
| 38. Heads of all the Autonomous Organisations and Zonal Cultural Centres                  | Member           |
| 39. Joint Secretary (Admn), Ministry of Culture   | Member-Secretary |

## 2. Functions of the Committee

The functions of this Committee will be to review the progress made in the use of Hindi in the Ministry of Culture and its attached/subordinate offices and autonomous organizations and render advice for the effective implementation of official language policy as contained in the Official Language Act and the Official Language Rules made thereunder and the administrative instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language in this regard.

## 3. Tenure

The term of the Committee will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

- Members of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be members of Parliament.
- Ex-officio members of the Committee shall continue, as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee.
- If a vacancy arises on the Committee due to resignation or death of a member, the member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term.

## 4. General

The headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other stations also.

## 5. Travelling and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee at the rates and rules contained in Dept. of Official Language O.M. No. 11/20034/-OL(Imp-II) dt. 22.1.1987 and prescribed by the Govt. of India as amended from time to time.

## ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazetted of India for general information.

K. JAYAKUMAR  
Jt. Secy.